



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 122] नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 20, 1979/फाल्गुन 29, 1900  
No. 122] NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 20, 1979/PHALGUNA 29, 1900

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में  
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate  
compilation.

वाणिज्य, नागरिक आपूर्ति एवं सहकारिता मंत्रालय  
(वाणिज्य विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 20 मार्च, 1979

निर्यात व्यापार नियंत्रण

का. आ. 147 (अ)/सं. ई (सी)ओ, 1977/ए एम(104).—आयात-निर्यात (नियंत्रण)  
अधिनियम, 1947 (1947 का 18) के खण्ड 3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते  
हुए केंद्रीय सरकार एतद्वारा नियति (नियंत्रण) आदेश, 1977 में आगे संशोधन करने के  
लिए निम्नलिखित आदेश की रचना करती है, अर्थात् :—

1. इस आदेश को निर्यात (नियंत्रण) 20वां संशोधन आदेश, 1979 की संज्ञा दी  
जाए।

2. निर्यात (नियंत्रण) आदेश, 1977 में

(क) अनुसूची 1, भाग ख की क्रम सं. 70(9) के सामने विद्यमान प्रविष्टि और खुला सामान्य लाइसेन्स-3 में, क्रम सं. 40 के सामने कालम 2 में प्रदत्त समरूप प्रविष्टि के स्थान पर निम्नीलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी :—

“भारत-स्वीडन वस्त्र समझौते के अधीन कपास ऊन मानव-निर्मित रेशे या उसके सम्मिश्रण के कुछ वस्त्र उत्पादों का स्वीडन को निर्यात ।”

(ख) खुला सामान्य लाइसेन्स-3 में, क्रम सं. 40 के सामने कालम 4 में विद्यमान अभ्युक्ति की शर्त सं. (1) के स्थान पर निम्नीलिखित शर्त प्रतिस्थापित की जाएगी :—

“कपास या मानव-निर्मित रेशे की बँडोलिनन और भारत-स्वीडन वस्त्र समझौते में परिभाषित ग्रुप 4, 5, 9 और “रैस्ट ग्रुप” में आने वाले उत्पादों के लिए सूती वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद् ।”

[सं. 2/9/79/ईआई]

का. वें शेषाद्री,

मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात ।

MINISTRY OF COMMERCE, CIVIL SUPPLIES AND COOPERATION

(Department of Commerce)

ORDER

New Delhi the 20th March, 1979

EXPORT TRADE CONTROL

S.O. 147 (E)/No. E(C) O, 1977/AM(104).—In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Imports and Exports (Control) Act 1947 (18 of 1947) the Central Government hereby makes the following order further to amend the Exports (Control) Order, 1977, namely :—

1. This Order may be called the Exports (Control) Twentieth Amendment Order, 1979.

2. In the Exports (Control) Order, 1977

(a) the existing entry against S. No. 70 (ix) of part B, Schedule I, and corresponding entry in OGL. 3 appearing in Column 2 against S. No. 40 shall be substituted by the following :

“Export of certain Textile Products of Cotton wool manmade fibre or blends thereof to Sweden under Indo-Swedish Textile Agreement”.

(b) in OGL. 3, the condition No. (i) of existing remark in Column 4 against S. No. 40 shall be substituted by the following :—

“Cotton Textiles Export Promotion Council for bed linen of cotton or manmade fibre and products falling under group IV, V, IX and ‘Rest group’ defined in Indo-Swedish Textile Agreement.”

[File No. 2/9/79/EI]

K. V. SESHADRI,

Chief Controller of Imports and Exports